



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 19—नवम्बर 25, 2005 (कार्तिक 28, 1927)
No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 19—NOVEMBER 25, 2005 (KARTIKA 28, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1119	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1091	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित और होते हैं)...	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	13	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ...	2231	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1817
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	585
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2859
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	321
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1119	than the Administration of Union Territories).....	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1091	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	13	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.....	2231	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1817
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs.....	585
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners.....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills.....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies.....	2859
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	321
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi.....	*

*Folio not received.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 31 अक्टूबर 2005

सं क ल्प

सं. 20012/2/2005-हिन्दी: गृह मंत्रालय के दिनांक 7/8 अगस्त, 2000 के संकल्प संख्या 20012/1/2000-हिन्दी का अधिक्रमण करते हुए, भारत सरकार ने गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का निम्नप्रकार से पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है:

I गठन

- | | | |
|----|-----------------------|-----------|
| 1. | गृह मंत्री | अध्यक्ष |
| 2. | गृह राज्य मंत्री (जी) | उपाध्यक्ष |
| 3. | गृह राज्य मंत्री (जे) | उपाध्यक्ष |
| 4. | गृह राज्य मंत्री (आर) | उपाध्यक्ष |

II गैर-सरकारी सदस्य**संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित**

- | | | |
|----|--|-------|
| 5. | श्री मोती लाल वोरा, संसद सदस्य (राज्य सभा) | सदस्य |
| 6. | श्री दिनेश त्रिवेदी, संसद सदस्य (राज्य सभा) | सदस्य |
| 7. | श्री प्रबोध पांडा, संसद सदस्य (लोक सभा) | सदस्य |
| 8. | सुश्री भावना पुन्डलीकर राव गवाली, संसद सदस्य (लोक सभा) | सदस्य |

III संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित

- | | | |
|-----|---|-------|
| 9. | श्री गिरधारी लाल भार्गव, संसद सदस्य (लोक सभा) | सदस्य |
| 10. | श्री सुब्रत बोस, संसद सदस्य (लोक सभा) | सदस्य |

IV अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ द्वारा नामित

11. श्री कृष्णानन्द झा, देवघर (झारखण्ड) सदस्य

V केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद द्वारा नामित

12. डा. महेश चन्द्र गुप्त, नई दिल्ली सदस्य

VI राजभाषा विभाग द्वारा नामित

13. श्री एस.एम. रामचन्द्रस्वामी, बंगलौर सदस्य
 14. श्री श्रवण कुमार गोस्वामी, रांची सदस्य
 15. डा. योगेश दुबे, मुम्बई सदस्य

VII गृह मंत्रालय द्वारा नामित

16. श्रीमती मृणाल पाण्डे, नई दिल्ली सदस्य
 17. श्री अशोक वाजपेयी, नई दिल्ली सदस्य
 18. श्री प्रभुदेव रचय्या स्वामी, लातूर (महाराष्ट्र) सदस्य
 19. श्री भूदेवजी व्यंकटराव पाटील, लातूर (महाराष्ट्र) सदस्य

VIII सरकारी सदस्य

20. गृह सचिव सदस्य
 21. सचिव (राजभाषा) सदस्य
 22. सचिव (बी.एम.) सदस्य
 23. विशेष सचिव (आई.एस.) सदस्य
 24. अपर सचिव (सी.एस.) सदस्य
 25. अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार (गृह) सदस्य
 26. अपर सचिव (जे) सदस्य
 27. निदेशक, आसूचना ब्यूरो सदस्य
 28. महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल सदस्य
 29. महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सदस्य

30.	महानिदेशक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	सदस्य
31.	महानिदेशक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	सदस्य
32.	महानिदेशक, असम राइफल	सदस्य
33.	महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो	सदस्य
34.	महानिदेशक, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद	सदस्य
35.	महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल	सदस्य
36.	निदेशक, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी	सदस्य
37.	भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त	सदस्य
38.	निदेशक, समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)	सदस्य
39.	संयुक्त सचिव (राजभाषा)	सदस्य
40.	संयुक्त सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय	सदस्य-सचिव

समिति का कार्य

2. इस समिति का कार्य भारत के संविधान में राजभाषा के संबंध में की गई व्यवस्था, राजभाषा अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, केन्द्रीय हिन्दी समिति के निर्णयों तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा गृह मंत्रालय और उसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के बारे में सलाह देना होगा।

समिति का कार्यकाल

3. समिति का कार्यकाल इसके गठन की तारीख से तीन वर्ष के लिए होगा। संसद सदस्य, जो इस समिति के सदस्य हैं, सदन भंग होने अथवा उनका कार्यकाल समाप्त होने पर या अन्यथा सदन का सदस्य न रहने पर, समिति के सदस्य नहीं रहेंगे। समिति में स्थान खाली होने पर यदि किसी व्यक्ति को सदस्य नामित किया जाता है तो वह शेष अवधि के लिए सदस्य बना रहेगा। विशेष परिस्थितियों में समिति का कार्यकाल घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

यात्रा और अन्य भत्ते

4. समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11/20034/4/86-रा.भा.(क 2) में निहित दिशानिर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

5. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। तथापि, आवश्यकता पड़ने पर समिति अपनी बैठकें किसी अन्य स्थान पर भी कर सकती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यशवन्त राज, संयुक्त सचिव

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 अक्टूबर 2005

संकल्प

फा0 सं0 ई0 11011/5/2004-हिन्दी-4, राजस्व एवं व्यय विभागों की संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति के पुनर्गठन से संबंधित इस विभाग के दिनांक 11 अप्रैल, 2005 के संकल्प सं0 ई0 11011/5/2004-हिन्दी-4 में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि समिति के सदस्य सचिव, संयुक्त सचिव (प्रशा0) के0प्र0कर बोर्ड के स्थान पर संयुक्त सचिव(रा0) होंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय राजस्व लेखा परीक्षा निदेशक और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

के. मोहनदास, अपर सचिव (राजस्व)

लघु उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 3 नवम्बर 2005

संकल्प

सं. 9/8/03-लघु उद्योग(पी)-II--

राष्ट्रीय उद्यमिता विकास बोर्ड की स्थापना देश में उद्यमिता विकास हेतु सरकार के संकल्प संख्या 1(38)/83-ईडीपी दिनांक 8/10 सितम्बर, 1983 के अधीन अधिसूचना की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए की गई थी। पिछली बार बोर्ड का पुनर्गठन आदेश संख्या 9/(1)/98-लघु उद्योग पी-11 दिनांक 21 नवम्बर 2002 के अधीन किया गया था।

2. भारत सरकार ने तब से अनेक नीतियां अपनाई हैं, उद्यमिता विकास के लिए नई स्कीमें और कार्यक्रम आरंभ किए हैं तथा देश में अनेक उद्यमिता विकास संस्थान स्थापित किए हैं। परिवर्तित परिस्थितियों में, राष्ट्रीय उद्यमिता विकास बोर्ड को जारी रखने की कोई कार्यात्मक अथवा संगठनात्मक आवश्यकता नहीं है। इसलिए सावधानीपूर्वक विचार करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि ऊपर वर्णित संकल्प के अंतर्गत गठित तथा आदेश संख्या 9(1)/98-एसएसआई (पी)-11 दिनांक 21 नवंबर, 2002 के अंतर्गत पिछली बार पुनर्गठित राष्ट्रीय उद्यमिता विकास बोर्ड एतद्वारा समाप्त कर दिया जाए।

3. लघु उद्योग मंत्रालय की योजना स्कीम, जिसे सामूहिक रूप से 'एन.ई.डी.बी. स्कीम' कहा जाता है, का कार्यान्वयन उनका उचित प्रकार से पुनः नामकरण करने के उपरांत जारी रहेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी संबंधितों को संप्रेषित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत के राजपत्र में सामान्य सूचना हेतु प्रकाशित की जाए।

प्रवीर कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 31st October 2005

RESOLUTION

No. 20012/2/2005-Hindi: In supersession of the Ministry of Home Affairs Resolution No. 20012/1/2000-Hindi, dated 7/8th August, 2000, the Government of India have decided to reconstitute the Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of Home Affairs as under:-

I Composition

- | | | |
|----|--------------------------------|---------------|
| 1. | Home Minister | Chairman |
| 2. | Minister of State for Home (G) | Vice-Chairman |
| 3. | Minister of State for Home (J) | Vice-Chairman |
| 4. | Minister of State for Home (R) | Vice-Chairman |

II Non-Official Members**Nominated by M/o Parliamentary Affairs**

- | | | |
|----|---|--------|
| 5. | Shri Moti Lal Vora, MP (Rajya Sabha) | Member |
| 6. | Shri Dinesh Trivedi, MP (Rajya Sabha) | Member |
| 7. | Shri Prabodh Panda, MP (Lok Sabha) | Member |
| 8. | Ms. Bhavana Pundlikar Rao Gawali,
MP (Lok Sabha) | Member |

III Nominated by the Committee of Parliament on Official Language

- | | | |
|-----|---|--------|
| 9. | Shri Girdhari Lal Bhargav, MP (Lok Sabha) | Member |
| 10. | Shri Subrata Bose, MP (Lok Sabha) | Member |

IV Nominated by Akhil Bhartiya Hindi Sanstha Sangh

- | | | |
|-----|--|--------|
| 11. | Shri Krishnanand Jha,
Devghar (Jharkhand) | Member |
|-----|--|--------|

V Nominated by Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad

12. Dr. Mahesh Chandra Gupta, New Delhi Member

VI Nominated by Deptt. Of Official Language

13. Shri S.M. Ramchandraswami, Bangalore Member
14. Shri Shravan Kumar Goswami, Ranchi Member
15. Dr. Yogesh Dubey, Mumbai Member

VII Nominated by the Ministry of Home Affairs

16. Smt. Mrinal Pandey, New Delhi Member
17. Shri Ashok Vajpeyi, New Delhi Member
18. Shri Prabhudev Rachayya Swamy, Latur (MAH) Member
19. Shri Bhoodevji Vyankatrao Patil, Latur (MAH) Member

VIII Official Members

20. Home Secretary Member
21. Secretary (Official Language) Member
22. Secretary (BM) Member
23. Special Secretary (IS) Member
24. Addl. Secretary (CS) Member
25. Addl. Secretary & Financial Adviser (Home) Member
26. Addl. Secretary (J) Member
27. Director, Intelligence Bureau Member
28. Director General, Border Security Force Member
29. Director General, Central Reserve Police Force Member
30. Director General, Indo-Tibetan Border Police Member
31. Director General, Central Industrial Security Force Member
32. Director General, Assam Rifles Member
33. Director General, Bureau of Police Research
and Development Member
34. Director General, National Security Guards Member
35. Director General, Sashtra Seema Bal Member
36. Director, SVP National Police Academy Member
37. Registrar General and Census Commissioner
of India Member
38. Director, Directorate of Coordination
(Police Wireless) Member

- | | | |
|-----|-------------------------------------|------------------|
| 39. | Joint Secretary (Official Language) | Member |
| 40. | Joint Secretary (Admn.), MHA | Member-Secretary |

Functions of the Samiti

2. The functions of the Samiti will be to review the implementation of the Official Language Policy as envisaged in the Constitution of India, Official Languages Act & the rules made thereunder, decisions of the Kendriya Hindi Samiti and instructions issued by the Deptt. of Official Language and also to render advice in regard to increasing the use of Hindi in the working of the Ministry of Home Affairs and its Attached and Subordinate offices.

Tenure of the Samiti

3. The tenure of the Samiti will be for three years from the date of its constitution. Members of Parliament, who are members of the Samiti, shall cease to be members of the Samiti on the dissolution of the House or on expiry of their term or otherwise ceasing to be members of the House. If a vacancy arises in the Samiti, the member nominated against that vacancy shall hold office for the remaining period. Under special circumstances the tenure of the Samiti may be curtailed or extended.

Travelling and other allowances

4. The non-official members attending the meetings of the Samiti would be paid TA and DA as per the guidelines contained in Deptt. Of Official Language OM No. 11/20034/4/86-OL (A2) dated 22nd January, 1987 and as per the prescribed rates and rules as amended from time to time by the Govt. of India.

5. The headquarters of the Samiti shall be at New Delhi. However, it may hold its meetings at any outstations also, if necessary.

ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to all members of the Samiti, all State Governments and Union Territory Administrations, all Ministries and Deptts. of the Govt. of India, President Secretariat, Prime Minister Office, Cabinet Secretariat, Planning

Commission, Comptroller and Auditor General of India, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

YASHWANT RAJ, Jt. Secy.

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)
New Delhi, the 25th October 2005

RESOLUTION

F.No.E-11011/5/2004-Hindi IV In partial modification of Resolution No.E-11011/5/2004-Hindi IV dated 11-04-2005 of this Department regarding reconstitution of Joint Hindi Salahkar Samiti of the Department of Revenue and Expenditure, it has been decided that the member Secretary of the Samiti will now be Joint Secretary (Revenue) in place of Joint Secretary (Admn.) C.B.D.T.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the Members of this Committee, President Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Director of Audit Central Revenue and all Ministeries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. MOHANDAS, Addl. Secy. (Revenue)

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES

New Delhi-110011, the 3rd November 2005

RESOLUTION

No. 9/8/03-SSI(P)-II.—

The National Entrepreneurship Development Board was established as an apex body for entrepreneurship development in the country under Government Resolution No. 1(38)/83-EDP dated 8/10th September, 1983 for a period of two years with effect from the date of Notification. The Board was last re-constituted under Order No. 9/(1)/98-SSI P-II dated 21st November 2002.

2. Government of India has since then adopted several policies, launched new schemes and programmes for entrepreneurship development and established a number of entrepreneurship development institutions in the country. In the changed circumstances, there is no functional or organizational necessity of continuing with the National Entrepreneurship Development Board. On careful consideration, it has, therefore, been decided that the National Entrepreneurship Development Board set up under the Resolution noted above and last reconstituted under Order No. 9(1)/98-SSI (P) – II dated 21st November 2002 be and is hereby abolished.

3. The Plan Schemes of the Ministry of Small Scale Industries, collectively titled “NEDB Schemes” will however continue to be implemented, after renaming them suitably.

Order

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

Ordered also that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

PRAVIR KUMAR, Jt. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2005

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2005